


1. Probability of a sure event is  
 (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{3}{4}$   
 (C) 1 (D) 0

2.  increase the pressure of the refrigerant so that the refrigerant vapour would be able to dissipate its latent heat to the atmosphere.  
 (A) Cold side of system  
 (B) Evaporator  
 (C) Compressor  
 (D) Condenser

3. Arrange the following CMs of Haryana in chronological order :

1. Rao Birender Singh
2. Banarsi Das Gupta
3. Bansi Lal
4. Chaudhary Devi Lal

Select the correct answer using the codes given below.

- (A) 2, 1, 4, 3 (B) 1, 3, 2, 4  
 (C) 1, 4, 3, 2 (D) 1, 2, 3, 4

4. In a vapour absorption refrigerator, an analyzer is provided to  
 (A) remove water vapour  
 (B) remove condensed refrigerant vapour  
 (C) collect enough refrigerant  
 (D) maintain suction pressure in evaporator

5. The distance of the point P(1, -3) from the line  $2y - 3x = 4$  is

- (A)  $\frac{7}{\sqrt{13}}$  (B) 13  
 (C)  $\sqrt{13}$  (D) 7

6. The motion which is not simple harmonic is  
 (A) Vertical oscillations of a spring  
 (B) Motion of simple pendulum  
 (C) Motion of a planet around the sun  
 (D) Oscillation of liquid column in a U-tube

7. What is the refrigeration temperature requirement for frozen foods ?  
 (A)  $-10^{\circ}\text{C}$  (B)  $-15^{\circ}\text{C}$   
 (C)  $-35^{\circ}\text{C}$  (D)  $-45^{\circ}\text{C}$

1.  एक निश्चित घटना की प्रायिकता है  
 (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{3}{4}$   
 (C) 1 (D) 0

2.  रेफ्रिजरेट का दबाव बढ़ाता है ताकि रेफ्रिजरेट वाष्प अपनी लैटेंट ताप को वायुमंडल में फैलाने में सक्षम हो जाए।  
 (A) सिस्टम की ठंडी बाजू  
 (B) इवेपोरेटर  
 (C) कम्प्रेसर  
 (D) कंडेंसर

3. निम्नलिखित हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए :

1. राव बिरेंद्र सिंह
2. बनारसी दास गुप्ता
3. बंसीलाल
4. चौधरी देवी लाल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।

- (A) 2, 1, 4, 3 (B) 1, 3, 2, 4  
 (C) 1, 4, 3, 2 (D) 1, 2, 3, 4

4. वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेटर में एक एनालाइजर प्रदान किया जाता है  
 (A) जलवाष्प को दर करने के लिए  
 (B) संघनित रेफ्रिजरेट हटाने के लिए  
 (C) पर्याप्त रफ्रिजरेट इकट्ठा करने के लिए  
 (D) इवेपोरेटर में सक्षण प्रेशर बनाए रखने के लिए

5. रेखा  $2y - 3x = 4$  से बिंदु P(1, -3) की दूरी है

- (A)  $\frac{7}{\sqrt{13}}$  (B) 13  
 (C)  $\sqrt{13}$  (D) 7

6.  वह गति जो सरल आवर्त (सिम्पल हार्मोनिक) नहीं है  
 (A) स्प्रिंग का उर्ध्वाधर दोलन  
 (B) सरल पेंडुलम की गति  
 (C) सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की गति  
 (D) एक यू-ट्यूब में द्रव स्तंभ का दोलन

7.  जमे हुए (फ्रोजन) खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक प्रशीतिन तापमान कितना है ?

- (A)  $-10^{\circ}\text{C}$  (B)  $-15^{\circ}\text{C}$   
 (C)  $-35^{\circ}\text{C}$  (D)  $-45^{\circ}\text{C}$



8. The Charkhi-Dadri district of Haryana was formed in the year  
 (A) December 2013 (B) December 2015  
 (C) December 2014 (D) None of these
9. A human body can be considered as thermal machine with \_\_\_\_\_ % thermal efficiency.  
 (A) 60 (B) 30  
 (C) 45 (D) 20
10. Which among the following scheme was launched by Haryana Govt. to provide solar based home system to meet domestic basis energy needs ?  
 (A) Swarna Jyothi (B) Graha Jyothi  
 (C) Jeevan Jyothi (D) Manohar Jyothi
11. Extended surface evaporators are used  
 (A) for maintaining compressor inlet pressure  
 (B) for maintaining evaporator temperature  
 (C) when air is to be cooled  
 (D) none of the above
12. If the volume of a cube is  $729 \text{ cm}^3$ , then the surface area of the cube will be  
 (A)  $486 \text{ cm}^2$  (B)  $456 \text{ cm}^2$   
 (C)  $466 \text{ cm}^2$  (D)  $476 \text{ cm}^2$
13. A material which gets decomposed through natural processes, such as action by bacteria is called as  
 (A) Recycling  
 (B) Non-biodegradable  
 (C) Biodegradable  
 (D) Biodiversity
14. What is the fouling factor in condensers recommended for copper tubes ?  
 (A)  $0.00009 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$   
 (B)  $0.00029 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$   
 (C)  $0.00028 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$   
 (D)  $0.00018 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$
8. हरियाणा के चरखी-दादरी जिला \_\_\_\_\_ वर्ष में बना।  
 (A) दिसंबर 2013 (B) दिसंबर 2015  
 (C) दिसंबर 2014 (D) इनमें से कोई नहीं
9. मानव शरीर को \_\_\_\_\_ % तापीय क्षमता वाली तापीय मशीन माना जा सकता है।  
 (A) 60 (B) 30  
 (C) 45 (D) 20
10. निम्नलिखित में से कौन-सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा घरेलू आधार पर ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर आधारित होम सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी ?  
 (A) स्वर्ण ज्योति (B) गृह ज्योति  
 (C) जीवन ज्योति (D) मनोहर ज्योति
11. विस्तारित सतह इवेपोरेटर का उपयोग किया जाता है  
 (A) कंप्रेसर इनलेट दबाव बनाए रखने के लिए  
 (B) इवेपोरेटर के तापमान को बनाए रखने के लिए  
 (C) जब हवा को ठंडा करना हो  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
12. यदि किसी घन का आयतन  $729 \text{ cm}^3$  है, तो घन का सतह क्षेत्रफल कितना होगा ?  
 (A)  $486 \text{ cm}^2$  (B)  $456 \text{ cm}^2$   
 (C)  $466 \text{ cm}^2$  (D)  $476 \text{ cm}^2$
13. जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाएँ जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं, \_\_\_\_\_ कहलाते हैं।  
 (A) पुनर्चक्रण  
 (B) गैर-जैव-अपघटनीय  
 (C) जैव-अपघटनीय  
 (D) जैव विविधता
14. कॉपर ट्यूबों के लिए अनुशंसित कंडेनसर में दूषण कारक (फाउलिंग फेक्टर) क्या है ?  
 (A)  $0.00009 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$   
 (B)  $0.00029 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$   
 (C)  $0.00028 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$   
 (D)  $0.00018 \text{ J}^{-1} \text{sm}^2 \text{K}$



15. The ancient name of the river Markanda in Haryana is  
 (A) Dohan    (B) Chajju  
 (C) Yamu    (D) Aruna
16. Heat Exchanger Effectiveness is given by  $\epsilon =$   
 (A) Actual heat transfer / maximum possible heat transfer  
 (B) Maximum possible heat transfer / actual heat transfer  
 (C) minimum possible heat transfer / actual heat transfer  
 (D) none of the above
17. If the  $pK_a$  of acetic acid and  $pK_b$  of  $\text{NH}_4\text{OH}$  are 4.76 and 4.75 respectively, then pH of ammonium acetate solution is  
 (A) 0.01    (B) 7.005  
 (C) 9.51    (D) 4.755
18. Chemical formula of Freon 12 is  
 (A)  $\text{CHClF}_2$                                         (B)  $\text{CCl}_2\text{F}_2$   
 (C)  $\text{CClF}_2$     (D)  $\text{CH}_3\text{Cl}$
19. Who among the following freedom fighters of Haryana was known as the 'Lion of Ballabgarh' ?  
 (A) Raja Nahar Singh  
 (B) Rao Tularam  
 (C) Rai Bahadur Lala Murlidhar  
 (D) Noor Samand Khan
20. The area of P-V diagram for a Carnot cycle represents  
 (A) heat supplied  
 (B) heat rejected  
 (C) work done  
 (D) temperature drop
21. A man goes 5km towards east, then he takes a turn to south-west and goes 5 km. He again takes a turn towards north-west and goes 5km. With respect to the point from where he started, where is he now ?  
 (A) East    (B) North  
 (C) West    (D) South

15. हरियाणा के मार्कड़ा नदी का प्राचीन नाम है  
 (A) दोहन    (B) छज्जू  
 (C) यामू    (D) अरुणा
16. ताप विनियम प्रभावशीलता दी जाती है,  $\epsilon =$   
 (A) वास्तविक ताप अंतरण / अधिकतम संभव ताप अंतरण  
 (B) अधिकतम संभव ताप अंतरण / वास्तविक ताप अंतरण  
 (C) न्यूनतम संभव ताप अंतरण / वास्तविक ताप अंतरण  
 (D) उक्त में से कोई नहीं
17. यदि एसिटिक अम्ल का  $pK_a$  और  $\text{NH}_4\text{OH}$  का  $pK_b$  क्रमशः 4.76 और 4.75 है, तो अमोनियम एसिटेट विलयन का pH है  
 (A) 0.01    (B) 7.005  
 (C) 9.51    (D) 4.755
18. फ्रेयॉन 12 का रासायनिक सूत्र है  
 (A)  $\text{CHClF}_2$     (B)  $\text{CCl}_2\text{F}_2$   
 (C)  $\text{CClF}_2$     (D)  $\text{CH}_3\text{Cl}$
19. हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे 'बल्लभगढ़ का शेर' कहा जाता था ?  
 (A) राजा नाहर सिंह  
 (B) राव तुलाराम  
 (C) राय बहादूर लाला मुरलीधर  
 (D) नूर समंद खान
20. एक कार्नोट चक्र के लिए P-V आरेख का क्षेत्रफल दर्शाता है  
 (A) आपूर्ति किया गया ताप  
 (B) खारिज किया गया ताप  
 (C) कृत कार्य  
 (D) तापमान में गिरावट
21. एक व्यक्ति 5 km पूर्व दिशा की ओर जाता है, फिर वह दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 5 km चलता है। फिर, वह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 5 km चलता है। जिस बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया था, उस दृष्टि से वर्तमान में वह अब कहाँ होगा ?  
 (A) पूर्व    (B) उत्तर  
 (C) पश्चिम    (D) दक्षिण



22. The critical temperature of ammonia is  
 (A)  $132.4^{\circ}\text{C}$       (B)  $157.2^{\circ}\text{C}$   
 (C)  $31.0^{\circ}\text{C}$       (D)  $36.5^{\circ}\text{C}$
23. Which among the following Chief Minister of Haryana had declared complete prohibition on Liquor in State?  
 (A) Devi Lal      (B) B. D. Gupta  
 (C) Bansilal      (D) Virender Singh
24. What is the operating pressure of refrigerant ammonia at  $40^{\circ}\text{C}$ ?  
 (A) 15.33 bar      (B) 15.54 bar  
 (C) 16.638 bar      (D) 9.6 bar
25. Kushana Period is famous for the growth of this Greco-Roman Art  
 (A) Nagara Style of Art  
 (B) Mathura Art  
 (C) Gandhara Art  
 (D) Vesara Style of Art
26. In Haryana, Deru is  
 (A) A kind of refreshing drink famously consumed in Haryana  
 (B) An instrument made of wooden shell  
 (C) A festival celebrated to welcome the spring season  
 (D) None of the above
27. The atmospheric conditions are  $5^{\circ}\text{C}$  DBT and specific humidity of  $10 \text{ gm/kg}$  of air. Determine the partial pressure of vapour.  
 (A)  $0.0163 \text{ kg/cm}^2$       (B)  $0.0268 \text{ kg/cm}^2$   
 (C)  $0.0358 \text{ kg/cm}^2$       (D)  $0.0465 \text{ kg/cm}^2$
28. Which of the following Harappan sites is the largest site in India?  
 (A) Kunal      (B) Mitathal  
 (C) Rakhigarhi      (D) Bhirana
29. In a power station, 218 tons of coal with a calorific value of  $29.5 \text{ MJ/kg}$  is burnt per hour. If the efficiency of conversion is 28%, determine the power developed.  
 (A) 250 MW      (B) 434 MW  
 (C) 350 MW      (D) 500 MW

22. अमोनिया का क्रांतिक तापमान है  
 (A)  $132.4^{\circ}\text{C}$       (B)  $157.2^{\circ}\text{C}$   
 (C)  $31.0^{\circ}\text{C}$       (D)  $36.5^{\circ}\text{C}$
23. निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब निवेद की घोषणा की थी ?  
 (A) देवीलाल      (B) बी. डी. गुप्ता  
 (C) बसीलाल      (D) विरेंद्र सिंह
24. रेफ्रिजरेंट अमोनिया की  $40^{\circ}\text{C}$  पर ऑपरेटिंग दबाव क्या है ?  
 (A) 15.33 बार      (B) 15.54 बार  
 (C) 16.638 बार      (D) 9.6 बार
25. कुषाण काल इस ग्रीको-रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है  
 (A) आर्ट की नागर शैली  
 (B) मथुरा आर्ट  
 (C) गांधार आर्ट  
 (D) आर्ट की वेसर शैली
26. हरियाणा में डेरु क्या है ?  
 (A) हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला स्फूर्तिदायक पेय का एक प्रकार  
 (B) लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र  
 (C) बसंत क्रतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार  
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
27. वायुमंडलीय स्थितियाँ  $25^{\circ}\text{C}$  ढी बी टी और वायु के  $10 \text{ gm/kg}$  की विशिष्ट आर्द्रता हैं। वाष्प का आंशिक दबाव ज्ञात करें।  
 (A)  $0.0163 \text{ kg/cm}^2$       (B)  $0.0268 \text{ kg/cm}^2$   
 (C)  $0.0358 \text{ kg/cm}^2$       (D)  $0.0465 \text{ kg/cm}^2$
28. निम्नलिखित में से कौन-सा हड्ड्या स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल है ?  
 (A) कुणाल      (B) मिताथल  
 (C) राखीगढ़ी      (D) भिराना
29. एक पावर स्टेशन में,  $29.5 \text{ MJ/kg}$  के कैलोरीफिक मान के साथ 218 टन कोयला प्रति घंटे जलाया जाता है। यदि रूपांतरण की दक्षता 28% है, तो विकसित पावर का निर्धारण करें।  
 (A) 250 MW      (B) 434 MW  
 (C) 350 MW      (D) 500 MW



30. Which of the following are also called shooting stars ?  
 (A) Rockets                         (B) Asteroids  
 (C) Meteors                         (D) None of these
31. The language processor that translates a single statement of source program into machine code and executes it immediately before moving on to the next line is called  
 (A) Compiler                         (B) Assembler  
 (C) Interpreter                         (D) Converter
32. Ice is formed at  $0^{\circ}\text{C}$  from water at  $20^{\circ}\text{C}$ . The temperature of the brine is  $-10^{\circ}\text{C}$ . Find the ice formed per 1 HP hour. Assume that the refrigeration cycle used is perfect reversed Carnot cycle (Latent heat of ice = 80 kcal/kg)  
 (A) 67.67 kg                         (B) 55.5 kg  
 (C) 73.56 kg                         (D) 78.89 kg
33. The First Women's State University of Haryana is named after  
 (A) Swami Shraddhanand  
 (B) Bhagat Phool Singh  
 (C) Swami Dayanand  
 (D) Kalpana Chawla
34. Freezing point of sulphur dioxide is  
 (A)  $-50.8^{\circ}\text{C}$                          (B)  $-73.2^{\circ}\text{C}$   
 (C)  $-77.7^{\circ}\text{C}$                          (D)  $-56.6^{\circ}\text{C}$
35. A \_\_\_\_\_ describes all the data concerning one person or thing.  
 (A) Relation                         (B) Record  
 (C) Field                                 (D) Table
36. In 1886, Lala Lajpat Rai started his 1<sup>st</sup> law practice at  
 (A) New York                         (B) Lahore  
 (C) Hisar                                 (D) Rohtak

30. निम्नलिखित में से कौन-सा दृटा तारा भी कहलाता है ?  
 (A) रॉकेट                             (B) ग्रहिका  
 (C) उल्का                                 (D) इनमें से कोई नहीं
31. वह लैंगेज प्रोसेसर, जो स्रोत प्रोग्राम के एकल कथन का मशीन कोड में अनुवाद करता है और अगली लाइन पर जाने से तुरंत पहले इसे निष्पादित करता है, उसे कहा जाता है ।  
 (A) कंपाइलर                         (B) असेंब्लर  
 (C) इंटरप्रीटर                         (D) कन्वर्टर
32.  $20^{\circ}\text{C}$  पानी से  $0^{\circ}\text{C}$  पर बर्फ बनता है । ब्राइन का तापमान  $-10^{\circ}\text{C}$  है , प्रति 1 HP घंटे में तैयार बर्फ की गणना करें । जबकि प्रशीतन चक्र पूर्ण विपरीत कार्नोट चक्र है ।  
 (बर्फ के क्वथन के लिए आवश्यक ताप = 80 kcal/kg)  
 (A) 67.67 kg                             (B) 55.5 kg  
 (C) 73.56 kg                             (D) 78.89 kg
33. हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम \_\_\_\_\_ के नाम पर रखा गया है ।  
 (A) स्वामी श्रद्धानंद  
 (B) भगत फूल सिंह  
 (C) स्वामी दयानंद  
 (D) कल्पना चावला
34. सल्फर डाइऑक्साइड का हिमांक होता है  
 (A)  $-50.8^{\circ}\text{C}$                              (B)  $-73.2^{\circ}\text{C}$   
 (C)  $-77.7^{\circ}\text{C}$                              (D)  $-56.6^{\circ}\text{C}$
35. \_\_\_\_\_ किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन करता है ।  
 (A) रिलेशन                             (B) रिकॉर्ड  
 (C) फ़िल्ड                                 (D) टेबल
36. 1886 में, लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत \_\_\_\_\_ में शुरू की ।  
 (A) न्यूयॉर्क                             (B) लाहौर  
 (C) हिसार                                 (D) रोहतक

- 37.** \_\_\_\_\_ works on continuously changeable aspects of physical phenomenon such as fluid pressure, mechanical motion and electrical quantities.
- Digital computer
  - Analog computer
  - Hybrid computer
  - Micro computer
- 38.** The process of continuous heating and cooling of the equipment or system by varying the heat load is known as
- sensible heat process
  - latent heat process
  - degree of saturation
  - none of the above
- 39.** \_\_\_\_\_ was carved out from Bhiwani and formed as a new district of Haryana.
- Jind
  - Charkhi Dadri
  - Jhajjar
  - Hisar
- 40.** Heat removing capacity of a one ton refrigerator is
- 25 Kcal/min
  - 50 Kcal/min
  - 60 Kcal/min
  - 100 Kcal/min
- 41.** Which among the following has low resistivity?
- Silver
  - Manganin
  - Manganin
  - Glass
- 42.** 200 cu. m. of air per min. is passed through the adiabatic humidifier. The condition of air at inlet is 40°C DBT and 15% RH and the outlet condition is 25°C DBT and 20°C WBT. Find the dew point temperature
- 8.5°C
  - 10.5°C
  - 9.5°C
  - 12.5°C
- 43.** In the battle of Plassey, the British East India Company's army was lead by
- Lord Wellesley
  - Lord Cornwallis
  - Robert Clive
  - Sir Eyre Coote
- 37.** \_\_\_\_\_, भौतिक घटना के निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं पर काम करता है, जैसे द्रव का दबाव, यांत्रिक गति और विद्युत मात्रा।
- डिजिटल कंप्यूटर
  - एनालॉग कंप्यूटर
  - हाइब्रिड कंप्यूटर
  - माइक्रो कंप्यूटर
- 38.** ताप भार को बदलकर उपकरण या प्रणाली के निरंतर तापन और शीतलन की प्रक्रिया को कहा जाता है
- सेंसिबल ताप प्रक्रिया
  - लैटेंट ताप प्रक्रिया
  - संतृप्ति की डिग्री
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
- 39.** \_\_\_\_\_ को भिवानी से निकाला गया और हरियाणा का एक नया जिला बनाया गया।
- जींद
  - चरखी दादरी
  - झज्जर
  - हिसार
- 40.** एक टन रेफ्रिजरेटर की गर्मी दूर करने की क्षमता है
- 25 Kcal/min
  - 50 Kcal/min
  - 60 Kcal/min
  - 100 Kcal/min
- 41.** निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता निम्न है?
- चाँदी
  - मैग्नीज
  - मैग्नीन
  - काँच
- 42.** एडियाबेटिक हयूमिडिफायर के माध्यम से प्रति मिनट 200 cu. m. हवा गुजरती है। इनलेट पर हवा की स्थिति 40°C डी बी टी और 15% आर एच है और आउटलेट की स्थिति 25°C डी बी टी और 20°C डब्ल्यू बी टी है। ओस बिंदु तापमान का पता लगाएं।
- 8.5°C
  - 10.5°C
  - 9.5°C
  - 12.5°C
- 43.** प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था?
- लॉर्ड वेलेजली
  - लॉर्ड कॉर्नवालिस
  - रॉबर्ट क्लाइव
  - सर आयर कूट

44. What is the barometric pressure in mm Hg for a altitude of 2280 m ?  
 (A) 760                    (B) 693  
 (C) 633                    (D) 577
45. Which among the following program was launched by the Haryana Govt. to develop skilled manpower in the field of renewable energy ?  
 (A) Swarnim Jayanti Scheme  
 (B) Surya Mitra  
 (C) Ujwal Assurance Yojana  
 (D) None of the above
46. The operating system takes care of the allotment of CPU time to different processes is called  
 (A) Allotting              (B) Processing  
 (C) Time sharing            (D) Scheduling
47. If  $\alpha - i\beta = \frac{3 - 4ix}{3 + 4ix}$ , then the value of  $\alpha^2 + \beta^2$  is  
 (A) 1                      (B) 2  
 (C) 5                      (D)  $\frac{1}{2}$
48. Indira Gandhi University in Haryana is located at  
 (A) Hisar                    (B) Rewari  
 (C) Ambala                (D) Karnal
49. The measurement of thermodynamic property known as temperature is based on  
 (A) Zeroth law  
 (B) First law of thermodynamics  
 (C) Second law of thermodynamics  
 (D) None of the above
50. In 1946 'The Objectives Resolution' in Constituent Assembly was moved by  
 (A) Pattabi Seetharamiah  
 (B) Dr. Babu Rajendra Prasad  
 (C) Dr. B. R. Ambedkar  
 (D) Jawaharlal Nehru
44. 2280 मीटर की ऊंचाई के लिए mm Hg में वैरोमीटर का दबाव क्या है ?  
 (A) 760                    (B) 693  
 (C) 633                    (D) 577
45. पुनर्जीवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल मानवशक्ति विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है ?  
 (A) स्वर्णिम जयंती योजना  
 (B) सूर्य मित्र  
 (C) उज्ज्वल एश्योरंग योजना  
 (D) उक्त में से कोई नहीं
46. विभिन्न प्रक्रियाओं को सीधी समय के आवंटन का ख्याल ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, इसे \_\_\_\_\_ कहा जाता है।  
 (A) आवंटन              (B) प्रसंस्करण  
 (C) टाइम शेयरिंग    (D) शेड्यूलिंग
47. यदि  $\alpha - i\beta = \frac{3 - 4ix}{3 + 4ix}$ , तो  $\alpha^2 + \beta^2$  का मान है  
 (A) 1                      (B) 2  
 (C) 5                      (D)  $\frac{1}{2}$
48. इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय हरियाणा के \_\_\_\_\_ में स्थित है।  
 (A) हिसर                (B) रवाड़ी  
 (C) अंबाला            (D) करनाल
49. थर्मोडायनामिक गुण का मापन, जो तापमान कहलाता है, वह आधारित होता है  
 (A) शून्य (जिरोथ) का नियम पर  
 (B) थर्मोडायनामिक का पहला नियम पर  
 (C) थर्मोडायनामिक का दूसरा नियम पर  
 (D) उक्त में से कोई नहीं
50. 1946 में संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' किसके द्वारा पेश किया गया था ?  
 (A) पट्टबी सीतारामय्या  
 (B) डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद  
 (C) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर  
 (D) जवाहरलाल नेहरू

51. State tree of Haryana is  
 (A) Coconut                    (B) Mango  
 (C) Peepal                    (D) Neem
52. Dew point temperature lines on the psychometric chart are  
 (A) straight inclined sloping downward to the right  
 (B) curved  
 (C) vertical  
 (D) horizontal
53. \_\_\_\_\_ is a small silicon chip or wafer made up of extremely purified silicon crystals.  
 (A) Microprocessor  
 (B) Vacuum tube  
 (C) Integrated circuit  
 (D) Transistor
54. At which place the battle between General Lake's British forces and the Marathas took place on 6<sup>th</sup> September 1803 ?  
 (A) Pratapganj                (B) Panipat  
 (C) Gurugram                (D) Hisar
55. Choose the correct statement about BS (Bharat Stage) – VI emission standards of the Government of India.  
 (A) India is currently operating on the BS – V emission norms.  
 (B) The Central Government has announced that from April 1, 2022, all vehicles sold in India should comply with Bharat Stage – VI or BS – VI emission standards.  
 (C) The BS standards are the legal limits on the amount of air pollutants like carbon monoxide (CO) and particulate matter that a vehicle in India can emit.  
 (D) None of the above

51. हरियाणा का राज्य वृक्ष है  
 (A) नारियल                (B) आम  
 (C) पीपल                    (D) नीम
52. साइकोमेट्रिक चार्ट पर ओस बिंदु तापमान रेखा है  
 (A) सीधे नीचे की ओर दाईं ओर द्वाका हुआ  
 (B) वक्र  
 (C) लंबवत्  
 (D) क्षेत्रिज
53. \_\_\_\_\_ एक छोटा सिलिकॉन चिप या वेफर है, जो अत्यंत शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल से बना होता है।  
 (A) माइक्रोप्रोसेसर  
 (B) वैक्यूम ट्यूब  
 (C) इंट्रोग्रेट सर्किट  
 (D) ड्रीजिस्टर
54. किस स्थान पर जनरल लेक की ड्रिटिश सेना और मराठों के बीच 6 सितंबर 1803 को युद्ध हुआ ?  
 (A) प्रतापगंज                (B) पानीपत  
 (C) गुरुग्राम                (D) हिसार
55. भारत सरकार के बी एस (भारत स्टेज) – VI उत्सर्जन मानकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें।  
 (A) वर्तमान में भारत में बी एस – V उत्सर्जन मानकों का पालन किया जाता है।  
 (B) केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2022 से भारत में बेचे जाने वाले सभी वाहन भारत स्टेज – VI या बी एस – VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करेंगे।  
 (C) बी एस मानक कार्बन मोनोक्साइड (CO) और पार्टिकुलेट मैटर जैसे वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा की कानूनी सीमाएँ तय करता है, जो एक वाहन भारत में उत्सर्जित कर सकता है।  
 (D) उक्त में से कोई नहीं



56. Who was the first Muslim ruler of the Slave dynasty in Haryana ?  
 (A) Razia Sultan  
 (B) Iltutmish  
 (C) Qutb-ud-din Aibak  
 (D) Balban
57. A system comprising a single phase is known as  
 (A) open system  
 (B) closed system  
 (C) homogeneous system  
 (D) heterogeneous system
58. Halophytes are  
 (A) Plants adapted to growing in less water conditions  
 (B) Plants adapted to growing in saline conditions  
 (C) Plants adapted to growing in high temperature conditions  
 (D) None of the above
59. Which Chapter of Haryana Panchayati Raj Act, 1994 deals with Duties and Functions of Zila Parishad ?  
 (A) Chapter X                    (B) Chapter XI  
 (C) Chapter IX                  (D) Chapter V
60. In mechanical refrigeration system, the refrigerant has the maximum temperature  
 (A) in evaporator  
 (B) before expansion valve  
 (C) between compressor and condenser  
 (D) between compressor and evaporator
61. Pick the odd number.  
 (A) 751  $\frac{1}{2}$                     (B) 437  $\frac{1}{1}$   
 (C) 189  $\frac{1}{4}$                     (D) 347  $\frac{1}{8}$
62. Adiabatic dehumidification is based on the principle of  
 (A) Expansion  
 (B) Adsorption  
 (C) Evaporation  
 (D) Condensation
56. हरियाणा में गुलाम कंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था ?  
 (A) रजिया सुल्तान  
 (B) इल्तुतमिश  
 (C) कुतुब - उद - दीन ऐबक  
 (D) बलबन
57. जिस सिस्टम में एक ही फेज हो, उसे कहते हैं  
 (A) ओपन सिस्टम  
 (B) क्लोस्ड सिस्टम  
 (C) होमोजीनाइस सिस्टम  
 (D) हेटोरोजीनाइस सिस्टम
58. हैलोफाइट्स हैं  
 (A) कम जल की परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित पौधे  
 (B) लवणीय परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित पौधे  
 (C) उच्च ताप परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित पौधे  
 (D) उक्त में से कोई नहीं
59. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 का कौन-सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है ?  
 (A) अध्याय X                    (B) अध्याय XII  
 (C) अध्याय IX                 (D) अध्याय XVI
60. यांत्रिक प्रशीतन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट का अधिकतम तापमान होता है  
 (A) इवेपोरेटर में  
 (B) विस्तार वाल्व से पहले  
 (C) कंप्रेसर और कंडेनसर के बीच  
 (D) कंप्रेसर और इवेपोरेटर के बीच
61. असंगत संख्या को चुनिए।  
 (A) 751                            (B) 437  $\frac{1}{1}$   
 (C) 189  $\frac{1}{4}$                         (D) 347  $\frac{1}{8}$
62. रुद्धोष निराद्रीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है ?  
 (A) प्रसरण (इक्सपांशन)  
 (B) अधिशोषण (एडसॉर्शन)  
 (C) वाष्पीकरण (इवेपोरेशन)  
 (D) सघनन (कंडेंसेशन)

63. National Dairy Research Institute was established at \_\_\_\_\_ in 1923 before shifting to Karnal district of Haryana.  
 (A) Mumbai                   (B) Chandigarh  
 (C) Bangalore               (D) Delhi
64. Calculate the critical pressure of O<sub>2</sub> using ideal gas equation and Van der Waal's equation.  
 (A) 180 bar, 80 bar  
 (B) 200 bar, 70 bar  
 (C) 173 bar, 65 bar  
 (D) 150 bar, 90 bar
65. If in a certain language 'REMOTE' is coded as 'ROTEM'E, then which word would be coded as PNIICC ?  
 (A) NPIICC                   (B) PINCIC  
 (C) PICNIC                   (D) None of these
66. 'Ratnavali' is a famous work of  
 (A) Kalidas                   (B) Harshavardhan  
 (C) Banabhatta              (D) Nagachan
67. The comfort conditions in air conditioning are at (where DBT = dry bulb temperature and RH = relative humidity)  
 (A) 25°C DBT and 100% RH  
 (B) 20°C DBT and 80% RH  
 (C) 25°C DBT and 40% RH  
 (D) None of these
68. Japan has a parliamentary system with the \_\_\_\_\_ as the head of the State.  
 (A) Emperor                  (B) Prime Minister  
 (C) Chancellor               (D) President
69. \_\_\_\_\_ fibers embedded in plastic material are used in tennis rackets.  
 (A) Glass                     (B) Aluminium  
 (C) Graphite                  (D) Silicon

68. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाए जाने से पहले \_\_\_\_\_ में स्थापित किया गया था।  
 (A) मुंबई                   (B) चंडीगढ़  
 (C) बैंगलोर              (D) दिल्ली
64. आदर्श गैस समीकरण और वेंडरवाल समीकरण का उपयोग करके O<sub>2</sub> के क्रांतिक दबाव की गणना करें।  
 (A) 180 बार, 80 बार  
 (B) 200 बार, 70 बार  
 (C) 173 बार, 65 बार  
 (D) 150 बार, 90 बार
65. यदि एक निश्चित भाषा में 'REMOTE' का कोड 'ROTEM'E है, तो किस शब्द का कोड PNIICC होगा?  
 (A) NPIICC                   (B) PINCIC  
 (C) PICNIC                   (D) इनमें से कोई नहीं
66. 'रत्नावली' \_\_\_\_\_ की एक प्रसिद्ध रचना है।  
 (A) कालिदास           (B) हर्षवर्धन  
 (C) बाणभट्ट              (D) नागचंद
67. एयर कंडीशनिंग में सुविधाजनक स्थिति \_\_\_\_\_ है।  
 (जहाँ डी बी टी = शुष्क बल्ब की तापमान और आर एच = सापेक्ष आर्द्रता)  
 (A) 25°C DBT और 100% RH  
 (B) 20°C DBT और 80% RH  
 (C) 25°C DBT और 40% RH  
 (D) इनमें से कोई नहीं
68. जापान की संसदीय प्रणाली में \_\_\_\_\_ राज्य का प्रमुख होता है।  
 (A) सम्राट                  (B) प्रधानमंत्री  
 (C) चांसलर               (D) राष्ट्रपति
69. \_\_\_\_\_ तंतु जो प्लास्टिक पदार्थों में अंतःस्थापित होते हैं, टेनिस रैकेट में प्रयोग किए जाते हैं।  
 (A) काँच                   (B) एल्यूमीनियम  
 (C) ग्रेफाइट              (D) सिलिकॉन



70. Shivalik hills are not found in the district of Haryana.  
 (A) Yamunanagar      (B) Sirsa  
 (C) Panchkula      (D) Ambala
71. Which pipe material is not used with ammonia?  
 (A) Aluminium      (B) Copper  
 (C) Iron      (D) None of these
72. Mount Pinatubo (Volcano mountain) is located in which of the following country?  
 (A) China  
 (B) Japan  
 (C) Philippines  
 (D) None of the above
73. Match the following.
- | Battle                               | Year    |
|--------------------------------------|---------|
| a. 1 <sup>st</sup> battle of Panipat | 1. 1526 |
| b. 2 <sup>nd</sup> battle of Panipat | 2. 1556 |
| c. 3 <sup>rd</sup> battle of Panipat | 3. 1761 |
- Codes :**
- | a     | b | c |
|-------|---|---|
| (A) 3 | 1 | 2 |
| (B) 3 | 2 | 1 |
| (C) 1 | 2 | 3 |
| (D) 2 | 1 | 3 |
74. In the following question, some of the letters are missing. The missing letters are given in the proper sequence as one of the alternatives given under the question. Find out the correct one.  
 rst\_vrs\_uv\_stu\_rst\_ \_  
 (A) utrvuv      (B) uvtrsuv  
 (C) uvtrstu      (D) rstrsts
75. Leakage in a refrigeration system using Freon as refrigerant is detected by  
 (A) Halide torch      (B) Sulphur stick  
 (C) Soap and water      (D) Acetylene test

70. शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के \_\_\_\_\_ जिले में नहीं पाई जाती।  
 (A) यमुनानगर      (B) सिरसा  
 (C) पंचकुला      (D) अंबाला
71. अमोनिया के साथ किस पाइप सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है ?  
 (A) अल्युमिनियम      (B) तांबा  
 (C) लोहा      (D) इनमें से कोई नहीं
72. माउंट पिनाटुबो (ज्वालामुखी पर्वत) निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ?  
 (A) चीन  
 (B) जापान  
 (C) फिलीपींस  
 (D) उक्त में से कोई नहीं
73. निम्नलिखित को मिलाइए।
- | युद्ध                      | वर्ष    |
|----------------------------|---------|
| a. पानीपत का प्रथम युद्ध   | 1. 1526 |
| b. पानीपत का द्वितीय युद्ध | 2. 1556 |
| c. पानीपत का तृतीय युद्ध   | 3. 1761 |
- Codes :**
- | a     | b | c |
|-------|---|---|
| (A) 3 | 1 | 2 |
| (B) 3 | 2 | 1 |
| (C) 1 | 2 | 3 |
| (D) 2 | 1 | 3 |
74. निम्नलिखित प्रश्न में कुछ अक्षर लुप्त हैं। लुप्त अक्षरों को उचित क्रम में प्रश्न के नीचे एक विकल्प के रूप में दिया गया है। सही विकल्प को चुनें।  
 rst\_vrs\_uv\_stu\_rst\_ \_  
 (A) utrvuv      (B) uvtrsuv  
 (C) uvtrstu      (D) rstrsts
75. रेफ्रिजरेट के रूप में फ्रेयॉन का उपयोग करके एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिसाव का पता किसके द्वारा लगाया जाता है ?  
 (A) हैलाइड टॉर्च      (B) सल्फर स्टिक  
 (C) साबुन और पानी      (D) एसिटिलीन परीक्षण

76. The Carnot cycle consists of two adiabatic processes and  
 (A) two isothermal processes  
 (B) two constant pressure processes  
 (C) two constant volume processes  
 (D) one constant pressure processes
77. Complete the given series.  
 1, 3, 7, 13, 21, ?  
 (A) 31                         (B) 33  
 (C) 29                         (D) 27
78. The process involving the flow of air through a spray of water is done by  
 (A) Air washer              (B) Water injection  
 (C) Steam injection        (D) Heating coils
79. Which famous academician of Haryana has served as the Governor of Kerala and Gujarat ?  
 (A) Swaraj Kaushal  
 (B) Sushma Swaraj  
 (C) Sarup Singh  
 (D) Om Prakash Jindal
80. Which report is considered as "Magna Carta of English Education in India" ?  
 (A) Sir Charles Wood's Despatch  
 (B) Hunter Commission Report  
 (C) Mecauley's Report  
 (D) Kothari Education Report
81. How many orbitals are possible for the level  $n = 4$  ?  
 (A) 14                         (B) 12  
 (C) 18                         (D) 16
82. Hali Award is given by  
 (A) Haryana Punjabi Akademi  
 (B) Haryana Urdu Akademi  
 (C) Haryana Sanskrit Akademi  
 (D) Haryana Hindi Akademi

76. कार्नोट चक्र में दो रुद्धोष्प्रक्रियाएँ और \_\_\_\_\_ होते हैं।  
 (A) दो समतापीय प्रक्रियाएँ  
 (B) दो स्थिर दबाव प्रक्रियाएँ  
 (C) दो स्थिर आयतन प्रक्रियाएँ  
 (D) एक स्थिर दबाव प्रक्रिया
77. दोहरा अंखलक्ष को किसे कीजिए।  
 1, 3, 7, 13, 21, ?  
 (A) 31                         (B) 33  
 (C) 29                         (D) 27
78. पानी के एक स्त्रे के माध्यम से हवा के प्रवाह को शामिल करने की प्रक्रिया \_\_\_\_\_ द्वारा की जाती है।  
 (A) एयर वॉशर              (B) वाटर इंजेक्शन  
 (C) स्ट्रीम इंजेक्शन      (D) हीटिंग कॉइल
79. हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद् ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है ?  
 (A) स्वराज कौशल  
 (B) सुष्मा स्वराज  
 (C) सरूप सिंह  
 (D) ओम प्रकाश जिंदल
80. किस रिपोर्ट को "भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैमा कार्ट" माना जाता है ?  
 (A) सर चार्ल्स बुडस डिस्पैच  
 (B) हंटर आयोग की रिपोर्ट  
 (C) मैकाले की रिपोर्ट  
 (D) कोठारी शिक्षा रिपोर्ट
81.  $n = 4$  स्तर के लिए कितने कक्षक संभव हैं ?  
 (A) 14                         (B) 12  
 (C) 18                         (D) 16
82. हाली अवार्ड \_\_\_\_\_ द्वारा दिया जाता है।  
 (A) हरियाणा पंजाबी अकादमी  
 (B) हरियाणा उर्दू अकादमी  
 (C) हरियाणा संस्कृत अकादमी  
 (D) हरियाणा हिंदी अकादमी

English Language

- 83.** In the following question, a sentence has been given in Active (or Passive) voice. Out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in Passive (or Active) voice.

You must look into this matter.  
 (A) This matter into looked by you  
 (B) This matter should be looked into by you  
 (C) This matter may be looked into by you  
 (D) This matter has been looked into by you

- 84.** Read the following sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. Mark the alphabet of that part with error as your answer.

She uses a good / quality of shampoo /  
 (A) (B)  
 so her hairs are / black.  
 (C) (D)

- 85.** Fill in the blanks with a suitable word from among the alternatives given below it.

He was tired \_\_\_\_\_ he went to work  
 (A) or (B) and  
 (C) but (D) since

- 86.** In the following question, some parts of the sentence have been jumbled up. You are required to rearrange these parts which are labelled as P, Q, R and S to produce the correct sentence. Choose the proper sequence.

- P. a valuable aid to education  
 Q. the cinema offers  
 R. not only amusement  
 S. but is also  
 (A) QRSP (B) RQSP  
 (C) SPQR (D) QSPR

हिन्दी भाषा

- 87.** इनमें से सात्त्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता

- (A) रोमांच  
 (B) कम्प  
 (C) स्वेद  
 (D) हर्ष

- 88.** इन वाक्यों को मिलाकर, एक मिश्र वाक्य बनाइए।  
 'शीला को पुस्तक खरीदनी थी। वह बाजार गई।'

- (A) शीला एक पुस्तक खरीदने बाजार गई।  
 (B) चूँकि शीला को पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई।  
 (C) शीला को एक पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई।  
 (D) इनमें से कोई नहीं

- 89.** 'मैं तो लुट गया', यह वाक्य \_\_\_\_\_ क्रिया का उदाहरण है।

- (A) अकर्मक  
 (B) प्रेरणार्थक  
 (C) सकर्मक  
 (D) इनमें से कोई नहीं

- 90.** यह विशेषण का प्रथम या मूल रूप है

- (A) उत्तमावस्था  
 (B) मूलावस्था  
 (C) उत्तरावस्था  
 (D) इनमें से कोई नहीं